

# Model Examination 2011-2012

## Part-II HINDI

HSE II

Time: 2½ hrs

Max. Score: 80

### General Instructions to the candidates

1. \* There is a cool-off time of 15 minutes in addition to the writing time of 2½ hrs.
2. \* Use cool-off time to get familiar with questions and plan your answers.
3. \* Read questions carefully before answering.

सूचना: निम्नलिखित गद्यांश पढ़ें और 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें:-

चौधरी साहब कोलकत्ता से दिसपूर जा रहा था। गाड़ी में वह बुलबुल से मिला। बुलबुल असम चाय कंपनी का सेल्स मैनेजर हैं। वह अपना गाँव, मंगलदाय लौट रहा था। इसके पिता गाँव के एक प्राइमरी स्कूल अध्यापक हैं। माँ घर संभालती है। उसकी एकमात्र बहिन ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती है। बुलबुल को कविता लिखने का शौक था। वह चौधरी साहब को कुछ कविताएँ सुनाने लगी। यह सुनकर चौधरी साहब पूछने लगे कि "अरे भाई तुम्हारी कविताओं में क्यों इतना दर्द छिपा है?" वह बोला "मेरा एक भाई था, जो बचपन में ही लापता हो गया। हम तीनों रोज़ एक साथ स्कूल जाते थे। एक दिन घर की पोखरी में जब नयी मछलियों का जन्म हुआ था तब उन्हें देखने के लिए मेरे भय्या स्कूल से जल्दी-जल्दी घर लौटे। उस दिन से वे लापता हैं। आज भी मेरी उम्मीद है कि ज़रूर एक-दिन भले-चंगे लौट आयेंगे और किसी आतंकवादी दल की चंगुल में न फँस जायें"। यह सब सुनकर चौधरी साहब का दिल भर आया और वे कहने लगे-"मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारा भाई तुम्हें सही सलामत जल्द-से जल्द मिल जायें।"

(शौक-रुचि, उम्मीद-प्रतीक्षा, भले चंगे-भली भांति, सही सलामत-बिना किसी नुकसान के)

1. चौधरी साहब कहाँ जा रहे थे? 1
2. बुलबुल क्या काम करता है? 1
3. बुलबुल के चरित्र की विशेषताएँ लिखें? 4
5. बुलबुल की आत्मकथा तैयार करें 8
6. गद्यांश का संक्षेपण करें। 7

सूचना: अंग्रेजी का खंड पढ़ें तथा 6 और 7 प्रश्नों के उत्तर लिखिए:-

The students wants to go for an excursion. They discuss this matter with the class teacher. Teacher asked where they want to go? Some students wish to go to Munnar, but some want to go to Kanya kumari. The teacher told them that they can spend one day for excursion. So they can't go to the Kanaya kumari. At last everyone decided to to Munnar.

(Excursion-विनोदयात्रा, decided- निश्चय करना)

6. छात्रों ने अध्यापक से किसके बारे में चर्चा की?

1

7. खंड के आधार पर छात्र और अध्यापक के बीच के इस वार्तालाप की पूर्ति करें।

8

छात्र : टीचर हम विनोदयात्रा .....

अध्यापक : .....

अथवा

अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद तैयार करें?

सूचना: निम्नलिखित कवितांश पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखें--

“अलमारियों में नहीं है जगह

अभी भी

बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं

अलमारियों के बाहर अस्त व्यस्त।

इन चीज़ों में शामिल है

सत्य, अहिंसा और प्रेम की विधियाँ

इनमें हैं, पुरानी यादों की कुछ अमूल्य निधियाँ

इनमें धर्म और ईमान भी हैं

इनमें आहत-सा पड़ा भगवान भी हैं”

- कविता: अलमारियों में क्या हैं

- रचयिता: अश्वघोष

(अस्त व्यस्त -Orderless, आहत-सा wounded)

8. कवि के अनुसार भगवान की स्थिति कैसी है?

1

9. अलमारियों के बाहर की चीजों में क्या-क्या शामिल हैं ? 2
10. इस कवितांश की तुलना " चिट्ठियाँ " कविता से करके आस्वादन टिप्पणी तैयार करें? 7
11. डोमिन काकी को "डोमिन पुकारने के कारण दादी ने बिट्टो के गाल पर तमाचा जकड़ा। इससे दुःखी बिट्टो उस दिन डायरी लिखती है। बिट्टो की डायरी कल्पना करके लिखें। 8
12. मलयालम साहित्य के विख्यात रचनाकार श्री सुकुमार अषिक्कोड का निधन हाल ही में हुआ। इससे आप बहुत दुःखी हैं। अपने मन का प्रकट करते हुए मित्र के नाम एक पत्र लिखें? 8
13. निम्नांकित सूचना पढ़ें। अंग्रेज़ी शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द रखकर सूचना का पुनर्लेखन करें? 8

भारत सरकार  
राजभाषा Advisory Committee  
Telecommunication कार्यालय

मान्यवर,

कार्यालय के हर Department को यह information दी जाती है कि हमारे कार्यालय में 14-9-08 को हिंदी दिवस मनाने का आयोजन किया गया है। समारोह का उद्घाटन Governor द्वारा किया जायेगा। कार्यालय के General manager अध्यक्ष पद संभालेंगे। समारोह में सब की उपस्थिति सादर आमन्त्रित है।

भवदीय  
Signature  
Co-ordinator

(रद्दीकरण माँग पत्र, विभाग, सूचना, महा प्रबंधक, हस्ताक्षर, सायोजक, राज्यपाल, सलाहकार, समिति, दूरसंचार, रियायत)

14. संकेतों के आधार पर निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखें? 8

**"मोबाइल फोन : लाभ एवं हानि"**

- ◆ विचार विनिमय का माध्यम
- ◆ दोस्तों एवं बन्धुओं से संपर्क
- ◆ मनोरंजन की उपाधि
- ◆ ज्ञान वर्धन की सुविधा जनक सामग्री
- ◆ अपरिचितों से बातचीत
- ◆ मोबाइल कैमरा का दुरुपयोग

◆ असभ्य दृश्यों का प्रचलन

◆ आत्महत्या

15. "कोटर और कुटीर" का गोकुल आज एक विख्यात साहित्यकार हैं। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। गोकुल और आप के बीच का साक्षात्कार तैयार करें? 8

16. चीनी भाई इलहाबाद में चैना सिल्क साडियों की दूकान खोल रहा है। महादेवी वर्मा दूकान का उद्घाटन करने आ रही हैं। इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करें?

**Prepared by: Attingal Cluster- Group -9**

**Members**

1. Neena Soman - GHSS, Vakkom
2. Bindu Lekha - GHSS, Kappil
3. Minimol - GHSS, Elampa